

जिल्ला शिक्षण समिति - ५५७

द्वितीय सत्रांत कसोटी - 2025

तारीख : 17-04-2025

विषय : छिन्दी

गुण : 80

वार : गुरुवार

धोरण : 6

समय : 8-00 थी 11-00

प्रश्न-1 (A) प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए । (6)

- (1) आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते ?
- (2) भिखारी के कटोरे में क्या क्या था ?
- (3) मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ?

(B) प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए । (6)

- (1) आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते है ?
- (2) तुम्हें विज्ञान का कौन-सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है ? क्यों ?
- (3) किन उपकरणों के माध्यम से संदेशाव्यवहार हो सकता है ?

प्रश्न-2 निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए । (किन्हीं तीन) (6)

- (1) जैसी करनी वैसी भरनी -
- (2) उलटा चोर कोतवाल को डाँटे -
- (3) कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली -
- (4) जो गरजते हैं सो बरसते नहीं -

प्रश्न-3 दिए गए चित्र के आधार पर आठ से दस वाक्य लिखिए । (8)



- प्रज्ञायक्षु विद्यार्थीओ माटे : मेले का वर्णन आठ से दस वाक्यों में लिखिए ।

प्रश्न-4 वाक्यों को सही क्रम में रखकर कहानी फिर से लिखिए ।

(6)

- ✓ 4 (1) चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा ।
- ✓ 2 (2) एक चिड़िया पेड़ पर घोंसले में रहती थी ।
- ✓ 5 (3) वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई ।
- ✓ 2 (4) घोंसले में चिड़िया अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी ।
- ✓ 3 (5) एक दिन एक शिकारी चिड़िया को मारना चाहता था ।
- ✓ 6 (6) शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया ।

प्रश्न-5 दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए ।

(6)

- (1) मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं ।
- (2) मुझे अपना घर बहुत पसंद है ।
- (3) वेदांत पढ़ाई में होशियार लड़का है ।
- (4) नेपोलियन सत्यवादी था ।
- (5) एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी
- (6) जीवन में खेल बहुत जरूरी है ।

प्रश्न-6 निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए ।

(6)

- (1) सेठ -
- (2) लड़की -
- (3) मोर -

प्रश्न-7 परिच्छेद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

जीवन में खेल जरूरी है । खेल से मनोरंजन मिलता है । हमारी तंदुरस्ती ठीक होती है । हम कभी बीमार नहीं पड़ते । रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है । खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं । जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं । खेलते समय हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है । उनसे हम खूब मिल-जुलकर खेलते हैं । जिससे हममें कई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती हैं । ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती हैं, इसलिए पढ़ाई के साथ-साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (1) जीवन में खेल का क्या महत्त्व है ?
- (2) खेल के अभाव में क्या होता है ?
- (3) पढ़ाई के साथ-साथ हमें क्या करना चाहिए ?
- (4) रोज खेलने से हमें क्या-क्या लाभ होते हैं ?
- (5) परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए ।

प्रश्न-8 निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर विरामचिह्न लगाकर वाक्य फिर से लिखिए । (6)

- (1) तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे ?
- (2) सच है देशप्रेम से बढ़कर कुछ नहीं.
- (3) क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे ?
- (4) कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई.
- (5) सच मैं तो पढ़ने में इतना मगन था !
- (6) पापा, कल मैंने रात के डेढ़ बजे तक पढ़ाई की .

प्रश्न-9 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए ।

- (1) कहा-सुनी होना । *एक दिन दिवाङ्ग होगा* (6)
- (2) नाक में दम करना । *एक दिन परेशान करेगा*
- (3) पैरों तले से जमीन खिसक जाना । *श्रीचा लोग होगा- दिव्यता करेगा*

प्रश्न-10 निम्नलिखित विषय पर चिट्ठी लिखिए ।

जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को चिट्ठी लिखिए । (8)

प्रश्न-11 निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए । (किन्हीं एक)

- (1) मोबाईल के लाभ और हानी (10)
- (2) हसन का न्याय

